

3899

4

6. Write a short note on ANY TWO :

- (a) Electronic Clearing System
- (b) National Saving Certificate
- (c) Bull & Bear Market
- (d) Cash Credit

किसी भी दो पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए :

- (क) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम
- (ख) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
- (ग) बुल और बियर मार्केट
- (घ) नकद ऋण

(4000)

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 3899

I

Unique Paper Code : 2416000002

Name of the Paper : Finance for Everyone

Name of the Course : Common Prog. Group (SEC)
UGCF

Semester : III

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 60

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt any 4 questions.
3. All questions carry equal marks.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

P.T.O.

2. किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें।
3. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. "Financial literacy is the ability to understand financial concepts and make informed decisions about money". Discuss Financial Literacy in view of the above statement.

“वित्तीय साक्षरता वित्तीय अवधारणाओं को समझने और धन के बारे में सूचित निर्णय लेने की क्षमता है।” उपरोक्त कथन के मद्देनजर वित्तीय साक्षरता पर चर्चा कीजिए।

2. "Mutual funds are subject to market risk." Do you agree?

“म्यूचुअल फंड बाजार जोखिम के अधीन हैं।” क्या आप सहमत हैं?

3. An effective customer grievance redressal mechanism is an essential for building trust on any business. Keeping in view of this, Reserve Bank of India Banking Ombudsman Scheme from 1995. State the grounds on which complaint can be lodged by the customer and its procedure.

किसी भी व्यवसाय पर विश्वास बनाने के लिए एक प्रभावी ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1995 से बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की। ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज करने के आधार और इसकी प्रक्रिया बताइये।

4. "A mortgage is critically important part of home loans." In light of the above statement, explain the meaning and importance of mortgage. Distinguish between Hypothecation, mortgage, and pledge.

“एक बंधक गृह ऋण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।” उपरोक्त कथन के प्रकाश में, बंधक का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। दृष्टिबंधक, बंधक और गिरवी के बीच अंतर कीजिए।

5. "The foundation stone of an insurance contract is the principle of utmost good faith." Do you agree? Elaborate the different principles of an insurance contract.

“एक बीमा अनुबंध की आधारशिला अत्यंत सद्भाव का सिद्धांत है।” क्या आप सहमत हैं? एक बीमा अनुबंध के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।